



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 20 मार्च, 2023**

**थाना जहांगीरपुर**

## **स्वयं को गोली मारकर झूठा अभियोग पंजीकृत कराने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 10-03-2023 को वादी प्रदीप सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम रखेड़ा थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर अपने घरे से घर जा रहा था रास्ते में अभियुक्तगण द्वारा उसे धक्का मारकर गिरा दिया गया तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर घायल कर दिया गया। इस संबंध में थाना जहांगीरपुर पर मु0अ0सं0- 21/2023 धारा 147/148/504/506/307/34 भादवि बनाम कलुआ पुत्र महिपाल, लालमन पुत्र भगवान सहाय, बल्लन पुत्र कमल किशोर, आकाश पुत्र इन्द्रेश, रितिक पुत्र गोरा निवासीगण ग्राम रखेड़ा थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर पंजीकृत कराया गया था।

जांच/विवेचना में उक्त घटना झूठी पायी गयी। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त प्रदीप सिंह का विवाद दिनांक 06.03.2023 को अपने गांव निवासी राजाराम पुत्र भरतसिंह से हुए था जिसमें उपरोक्त मुकदमें में नामजद व्यक्तियों द्वारा राजाराम का पक्ष लिया गया था। इसी कारण गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप सिंह ने अवैध तमंचे से अपने हाथ में स्वयं गोली मारकर खुद को घायल कर लिया था। उक्त घटना के क्रम में थाना जहांगीरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 20-03-2023 को अभियुक्त प्रदीप सिंह को घटना में प्रयुक्त तमंचे व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

- 1- प्रदीप सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम रखेड़ा थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर ।

### **बरामदगी-**

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना जहांगीरपुर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1- श्री धीरज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना जहांगीरपुर
- 2- उ0नि0 अशोक कुमार
- 3- है0का0 महेश शर्मा, का0 आशीष



**मीडिया सेल बुलंदशहर**